

METAL COATINGS (INDIA) LTD.

Works II: 113, HSIIDC Indl. Estate, Sector - 59, Faridabad - 121 004 Phones: 09999972371, Fax: 0129-2307422



Date: 03rd February, 2023

To, **BSE Limited**Phiroze Jeejeebhoy Towers
1st Floor, Dalal Street
Mumbai - 400 001

Ref.: Scrip Code - 531810; Scrip Id - METALCO

Dear Sir/Madam,

Sub.: Submission of Clippings of Newspaper Advertisement for intimation of Transfer of Unpaid/Unclaimed Dividend for the Financial Year 2015-16 and the underlying Equity Shares to IEPF

Pursuant to Regulation 30 and 47(1)(d) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and pursuant to the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, please find enclosed herewith the copies of the newspaper advertisement published by the Company in today's English and regional newspapers, Financial Express and Jansatta respectively.

The same is also made available on the Company's website viz www.mcil.net.

This is for your information and records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For Metal Coatings (India) Limited

Aditi Singh Company Secretary & Compliance Officer **FINANCIAL EXPRESS**

OSBI

Credit Risk Management Department, Corporate Centre, 3rd Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai-400 021

REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)

RFP NO: SBI/CRMD/RARR/22-23/01 DATED: 03.02.2023 Bids are invited by State Bank of India from the eligible bidders for "For subscription-based tool for Predictive Retail Portfolio Analysis". For details, please visit 'Procurement News' at https://www.sbi.co.in

Commencement of download of RFP: From 03.02.2023 (15:00 hrs). Last date and time for submission of bids: 27.02.2023 up to 15:00 hrs. Place: Mumbai

Deputy General Manager Date: 03.02.2023 RARR, CRMD, CC

Kingfa Science & Technology (India) Limited (formerly Hydro S & S Industries Limited) CIN: L25209TN1983PLC010438 Registered Office: Dhun Building, III Floor, 827, Anna Salai, Chennai – 600 002 Phone : 044 - 28521736 Fax : 044 – 28520420 E – mail : cs@kingfaindia.com Website : www.kingfaindia.com

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, February 14, 2023, inter-alia, to consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the guarter and nine months ended December 31, 2022.

The intimation is also available on the website of the Company at www.kingfaindia.com and on the website of the Stock Exchanges where the shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com. for Kingfa Science & Technology (India) Limited,

Place : Pune Nirnoy Sur Date : 02.02.2023 **Company Secretary**

Tyche Industries Limited Registered Office: C-21/A, Road No.9, Film Nagar Jubilee Hills, Hyderabad 500 096 Ph. No. 040-23541688, Email: cs_tyche@tycheindustries.com

NOTICE

NOTICE is hereby given pursuant to regulation 47 read with Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Monday, 13" February, 2023 at 3.30 P.M at Registered office i.e., C 21/A, Road No. 9, Film Nagar, Jubilee Hills, Hyderabad - 500 096, inter alia,

to consider and approve the Un-Audited financial results for the quarter & nine months ended 31" December, 2022. Further, in terms of the Company's Code of Conduct for Prevention of Insider Trading and Fair disclosure of Unpublished Price Sensitive Information and SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 the Trading Window for dealing securities by the Directors and Designated Persons of the

Company has been closed from 1st January, 2023 and it will open after 48

hours from the meeting of Board of Directors as scheduled above. The said notice may be accessed on the Company's website at www.tycheindustries.net and in the website of Stock Exchanges at www.bseindia.com.

For TYCHE INDUSTRIES LIMITED

Place: Hyderabad Date: 02.02.2023

Satya Ranjan Jena Company Secretary & Compliance Officer

SALE NOTICE UNDER THE INSOLVENCY **AND BANKRUPTCY CODE, 2016** JVL AGRO INDUSTRIES LIMITED (IN LIQUIDATION) CIN: L15140UP1989PLC011396

Registered Office: S 2/639-18, Hashmi Complex, Near JP Mehta Inter College, Club Road, Varanasi-221 002, Uttar Pradesh, India

(A Company under liquidation process pursuant to an order dated 19th August, 2020) passed by Hon'ble NCLT, Allahabad Bench) Office of the Liquidator: C/o. BDO India LLP, Floor 4, Duckback House,

41 Shakespeare Sarani, Kolkata - 700 017, India JVL Agro Industries Ltd. ("JVL" or "Corporate Debtor") is currently undergoing liquidation process in accordance with the provisions of the Insolvency & Bankruptcy Code, 2016 ("IBC") pursuant to Order of the Hon'ble National Company Law Tribunal

Allahabad Bench, dated August 19, 2020 and Mr. Supriyo Kumar Chaudhuri has been appointed as its Liquidator. Notice of sale is hereby given under IBC and Regulations made thereunder pursuant to consultation and advice of the Stakeholders' Consultation Committee, as constituted under Reg. 31A of the IBBI (Liquidation Process) Regulations, 2016, at its meeting held on 24th January, 2023, inviting EOI, Bid Application Form and Annexures together with relevant documents from Prospective Bidders interested in participating in E-Auction for purchase of the following standalone Block/(s) of Assets of the Corporate Debtor on "as on where on basis", "as is where is basis", "as is what is basis", "whatever there is basis" and "no recourse basis", according to the terms and conditions set out in the E-Auction

SALE OF STAND-ALONE BLOCK(S) OF ASSETS OF JVL AGRO INDUSTRIES LIMITED (IN LIQUIDATION) UNDER REGULATION 32(a) OF THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (LIQUIDATION PROCESS) REGULATIONS, 2016 BY E-AUCTION ON 9TH MARCH, 2023 BETWEEN 2:00 PM AND 5:00 PM

Process Information Document which may be viewed at WWW.JVLAGRO.COM/. The E Auction will be conducted through the service provider, M/s. E-procurement Technologies Limited (Auction Tiger) via website https://ncltauction.auctiontiger.net/ as per the details

Block No.	Block/(s) Title	Reserve Price (₹ in Crores)	EMD (₹ in Crores) [at 10% of Reserve Price]	bidding value during E-auction (₹ in Crores)
A3	Refined edible oil and vanaspati mill at Pahleja, Dist. Rohtas, near Dehri-on-Sone, Bihar	40.61	4.06	0.25
AA	Rice mill at Baank Farm, Akorhigola, Dist. Rohtas, near Dehri-on-Sone, Bihar	17.51	1.75	0.25
A6	Freehold Land in District Amreli (Gujrat) adjacent to Pipavav port	1.28	0.12	0.02
A9	Freehold Flat No. 513 in a commercial building at Babu Khan Estate, Bashir Bagh, Hyderabad	0.97	0.09	0.02
A10	Freehold Flat No. 515 in a commercial building at Babu Khan Estate, Bashir Bagh, Hyderabad	0.79	0.07	0.02

Each one of the Stand Alone Blocks of Assets, being A3 and A4 as aforesaid will include Land & Building, Plant & Machineries, Inventories, some felled trees at Rice Mill (for Block A4). Office Equipment, Furniture & Fixtures and Vehicles (details whereof would be

available on the Virtual Data Room (VDR)] which would be transferred. Relevant Due Dates for E-Auction of the Blocks of Assets as uploaded on HTTPS://WWW.JVLAGRO.COM/

Timeline
Saturday, 18th February, 2023
On or before Saturday, 25th Feb., 23
Saturday, 4th March, 2023
On or before Tuesday, 7th March, 23
Thursday , 9th March, 2023 (2:00PM - 5:00PM)

 a) The Sale will be subject to orders of the Hon'ble NCLT, Hon'ble NCLAT, Hon'ble High Courts, Hon'ble Supreme Court of India and the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 along with Regulations framed thereunder including guidelines released by the IBBI. Interested parties should regularly visit the website of JVL Agro Industries Ltd., i.e., on HTTPS://WWW.JVLAGRO.COM/ or email a LIQUIDATORJVL@LQJVL.COM for access to E-Auction Process Information Document and other relevant information including updates required for participation in the E-Auction. All terms and conditions of the E-Auction Process Information Document including all addendums, corrigenda and clarifications provided thereto shall be deemed to have been incorporated in this Sale Notice. For any further information, please contact

the Liquidator at +91 9330773661. b) It is clarified that this is not an offer document.

c) E-Auction will be conducted on "As on where on basis", "As is where is basis", "As is what is basis", "Whatever there is basis" and "No recourse basis". Such sale would be without any kind of warranties and indemnities from the Liquidator. d) Details of E-Auction Platform: - https://ncltauction.auctiontiger.net/

e) Interested parties are requested to submit their EOIs, application, affidavit undertaking etc. in the prescribed format to the Liquidator electronically followed by hard copies by Speed Post. The E-Auction Process Information Document in this regard providing detailed terms and conditions applicable to the E-Auction process along with Bid application and other Forms can be downloaded from the website of the Company at HTTPS://WWW.JVLAGRO.COM. f) Access will be provided to each individual qualified Bidder after receipt of EOI

Application Form and all prescribed documents including undertaking under Section 29A of IBC, 2016, in accordance with this Sale Notice and E-Auction Process Information Document to the satisfaction of the Liquidator. The decision of the Liquidator in this regard shall be final and binding on all parties concerned.

g) The E-Auction will be conducted on the scheduled date between 2:00 PM and 5:00 PM with unlimited extension of five minutes each. h) The Liquidator reserves the right to modify the E-Auction process terms and shall have

the absolute right to accept or reject any or all bids or abandon/adjourn / postpone /extend/cancel the E-Auction or withdraw any property or portion thereof from the E-Auction process or disqualify any prospective applicant at any stage without assigning any reason thereof and without any Notice or liability.

 All applicable taxes and other levies will be borne by the successful Bidder. i) Interested Parties/Prospective Bidders are required to furnish EMD in terms of the E-

Auction Process Information Document after completion of Due Diligence of the relevant Block(s) of Assets to their satisfaction. All prospective Bidders who have furnished EMD shall be mandatorily required to participate in the E-Auction. Non-participation in the E Auction of any prospective Bidder after furnishing EMD would result in forfeiture of its EMD and no claim for refund shall be entertained by the Liquidator. EMD of unsuccessfu Bidders only would be refundable without any interest after completion of E-Auction subject to all other terms and conditions specified in the E-Auction Process Information Supriyo Kumar Chaudhuri

Liquidator, JVL Agro Industries Limited IBBI/IPA-001/IP-P00644/2017-18/11098 E-mail: LIQUIDATORJVL@LQJVL.COM, BDO Restructuring Advisory LLP C/o. BDO India LLP, Duckback House, 4th Floor Place : Kolkata 41, Shakespeare Sarani, Kolkata-700017, India Dated: 3rd February, 2023



Registered office: 1st Floor, August Kranti Bhawan, Bhikaji Cama Place, R. K. Puram, New Delhi, South Delhi- 110066, CIN: L74999DL2003G0I118633, Email: investors@rvnl.org

Phone No.: 011-26738299, Fax: 011-26182957

Notice is hereby given pursuant to Regulation 29, 33 read with Regulation 47 of the SEB (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("Listing Regulations") that a meeting of Board of Directors of the Company will be held on Friday, 10th February, 2023, inter alia, to consider, approve and take on record the Unaudited

Financial Results (Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter and nine months ended 31st December, 2022. Pursuant to the "RVNL code of conduct for regulating and reporting trading by Designated Persons and their immediate relatives" the Trading Window Closure Period has commenced

Friday, 10th February, 2023. The intimation contained in this notice is also available on website of the Company at

For Rail Vikas Nigam Limited Place: New Delhi Kalpana Dubey Date: 02.02.2023



6 of Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amende from time to time ("the Rules"), the Company is mandated to transfer the Dividend for the Financial Year 2015-16, which remained unclaimed for a period of seven years to the IEPF Authority. The corresponding shares on which dividend was inclaimed for seven consecutive years will also be transferred as per the procedure set out in the Rules. In compliance to the Rules, the Company has communicated individually to the concerned shareholders at their registers address whose shares are liable to be transferred to IEPF during the FY 2023-24 for taking appropriate action and the details of such shares liable to be transferred to IEPF are also made available on our website viz www.mcil.net. Shareholder concerned may refer to the website to verify the details of their unencashed dividend and the shares liable to be transferred Shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that th Company would be issuing duplicate share certificate(s) in lieu of the original held by them, to convert it into DEMAT for

The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and sha be deemed adequate notice in respect of issue of the duplicate share certificate(s) by the Company for the purpose

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders by 30th April, 2023 th Company with a view to comply with the requirements of the Rules, transfer the dividend to the IEPF by the due date as pe rocedure stipulated in the Rules. The corresponding shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive yea Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred t

For any queries on the above matter, the shareholders are requested to contact the Company's Registrar and Sha Transfer Agents, M/s Link Intime India Private Limited, Noble Heights, 1st Floor, Plot No. NH 2, LSC, C-1 Block, Near Savi Market, Janakpuri, New Delhi-110058 Email: delhi@linkintime.co.in; Website: www.linkintime.co.in For Metal Coatings (India) Limite

Aditi Singl Company Secretary & Compliance Office AEGIS

Place : Mumbai

Date: February 2, 2023

AEGIS LOGISTICS LIMITED

Corp. Office: 1202, Tower B, Peninsula Business Park, G. K. Marg, Lower Parel (W), Mumbai - 400013. Tel.: +91 22 6666 3666 • Fax: +91 22 6666 3777 E-mail: aegis @ aegisindia.com • Website: www.aegisindia.com • CIN: L63090GJ1956PLC001032

EXTRACT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

						₹ in Lacs excep	t per share date
200	PARTICULARS	QUARTER ENDED			NINE MONT	YEAR ENDED	
Sr. No.		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total income from operations (net)	208,674	215,052	121,410	647,274	252,740	463,098
2	Net Profit for the period/ year (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	17,378	12,785	13,207	43,306	34,631	47,199
3	Net Profit for the period/ year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	17,378	12,785	13,207	43,306	34,631	47,199
4	Net Profit for the period/ year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	14,284	10,106	10,928	35,138	28,282	38,494
5	Total Comprehensive Income for the period/ year [Comprising Profit for the period/ year (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	14,285	10,109	10,915	35,145	28,246	38,507
6	Equity Share Capital	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510	3,510
7	Other Equity as shown in the Audited Balance Sheet.						214,470
8	Earnings Per Share (of ₹ 1/- each) (for continuing and discontinued operations)						
	Basic (in ₹)	3.57	2,66	2.90	9.18	7.49	10.19
	CASTNOTES AND A AND A STATE			a final part of the control of the c			1,241 11 11 41

Diluted (in ₹) 7.49 10.19 The key data relating to unaudited standalone financial results of Aegis Logistics Limited for the guarter and nine months ended December 31, 2022 is as under

3.57

0 00	(₹ in Lacs except per share						
	PARTICULARS	QI	NINE MONT	YEAR ENDED			
Sr.		31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
No.		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	87,659	75,023	31,696	227,005	79,405	122,798
2	Net Profit/ (Loss) for the period/ year before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	10,839	11,955	27,791	83,590	42,219	52,478
3	Net Profit/ (Loss) for the period/ year after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	8,671	10,076	25,791	66,192	36,705	45,190
4	Total Comprehensive Income for the period/year	8,673	10,079	25,779	66,200	36,671	45,199

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/Annual Financial Results are available on the Stock Exchange and company websites. (www.bseindia.com, www.nseindia.com & www.aegisindia.com)

For and on behalf of the Board **Aegis Logistics Limited**

Raj K Chandaria Chairman & Managing Director

Whirlpool

WHIRLPOOL OF INDIA LIMITED

REGD OFFICE: A-4, MIDC, RANJANGAON, TALUKA - SHIRUR, DIST. PUNE, MAHARASHTRA. PIN - 412220. CORPORATE OFFICE: PLOT NO. 40, SECTOR 44, GURUGRAM - 122 002.

Extract of Statement of Unaudited Results for the Quarter and Nine months ended December 31, 2022 (₹ in Lacs except earning per share)

Standalone

Consolidated

2.90

Consolidated			
ne months ended 31/12/2022 Jnaudited)	Quarter ended 31/12/2021 (Unaudited)		
499,500	154,195		
21,719	6,111		
21,719	6,111		
16,031	4,419		
16,237	3,997		
12,687	12,687		
	ā		
12.64	3.46		
12.64	3.46		
	16,237 12,687 -		

Notes:

Place: Gurugram Date: 01-02-2023

1. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the guarter and nine months ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and nine months financial results are available on the Stock Exchange website (www.nseindia.com and www.bseindia.com) and on the Company's website (www.whirlpoolindia.com)

For and on behalf of the Board **Arvind Uppal** Chairman



FORBES & COMPANY LIMITED

CIN: L17110MH1919PLC000628

Regd. Office: Forbes' Building, Charanjit Rai Marg, Fort, Mumbai - 400 001.

Tel. No.: +91-22-61358900 • Fax: +91-22-61358901 • Website: www.forbes.co.in • Email: investor.relations@forbes.co.in

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE AND CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

(₹ in Lakhs)

			STAND	ALONE					CONSOL	IDATED		
Particulars		Quarter end	led	Nine months ended Year ended		Quarter ended		Nine months ended		Year ended		
Particulars	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022	31.12.2022	30.09.2022	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2021	31.03.2022
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	6,027	6,319	6,602	18,739	18,234	23,505	10,343	11,473	13,673	34,001	39,821	51,473
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and / or Extraordinary items)	651	192	1,120	21,118	2,831	2,144	87	(1,406)	1,728	18,395	979	1,250
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	632	3,179	1,120	24,044	(6,324)	4,12,235	87	1,512	(925)	19,796	(4,734)	4,23,915
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	505	5,949	971	23,127	(6,873)	4,13,294	(408)	4,002	(1,109)	18,159	(6,900)	4,22,865
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	227	7,947	980	25,029	(6,863)	4,13,316	(1,690)	8,035	(1,792)	19,609	(8,144)	4,29,364
Paid up Equity Share Capital (Face value of Rs.10/- each)	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290	1,290
Other equity (excluding Revaluation Reserve)					2	2,612	2	1740	(S)	-	-	7,354
Basic & Diluted						5-574-5056						, 0// ESSS
Basic and diluted earnings per equity share (after exceptional items)	3.92	46.12	7.53	179.28	(53.28)	3,203.83	(3.20)	31.53	(8.67)	142.72	(51.12)	3,322.05
Basic and diluted earnings per equity share (before exceptional items)	4.06	22.96	7.53	156.60	17.69	24.83						
(Quarterly and nine months figures not annualised)												

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and nine months ended December 31, 2022 filed with BSE. Limited under Regulation 33 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly and nine months Financial Results are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and Company's website at www.forbes.co.in
- The overseas component Statutory Auditors have expressed modified option in their limited review report in two overseas subsidiary which has been reported by the Statutory Auditor of the Company in Sr. No. 5 & 6 of Limited Review Report on the Consolidated Unaudited Financial Results for the guarter and nine months ended 31.12.2022.

New Delhi

The Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results for the guarter and nine months ended December 31, 2022 have been reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 2, 2023.

> (Mahesh Tahilyani) Managing Director DIN: 01423084

For Forbes & Company Limited

financiale .in

NOTICE

from 1st January, 2023 and will end 48 hours after the financial results are made public on

www.rvnl.org and website of stock exchanges where the shares of the Company are listed at www.bseindia.com and www.nseindia.com.

Company Secretary & Compliance Officer

and transfer in favour of IEPF. Shareholders holding shares in demat form, their demat account will be debited for the shares liable to be transferred

the IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruir on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules.

Place: New Delhi Date: 02.02.2023

February 2, 2023

Mumbai,

दिनांक: 03.02.2023

आरएआरआर. सीआरएमडी, सीसी

सावेजनिक सूचना

प्रपत्न सं. आईएनसी-26 कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के एक राज्य से दूसरे राज्य में परिवर्तन हेतु समाचार पत्न में प्रकाशित किए जाने वाला विज्ञापन [कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनसार]

क्षेतीय निदेशक, उत्तर पश्चिम क्षेत्र के समक्ष,

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30(6)(ए) के मामले में

सीटा एजुकेशन फाउंडेशन इंडिया पंजीकृत कार्यालय, 3308, अपोजिट पूसा गेट, रणजीत नगर, साउथ दिल्ली, नई दिल्ली - 110008, दिल्ली के मामले में

एतहवारा जन साधारण को सचित किया जाता है कि कंपनी को अपना पंजीकत कार्यालय " दिल्ली राज्य" से " राजस्थान राज्य" मे स्थानोंतरित करने में सक्षम बनाने के लिए, नवंबर 14 , 2022 को आयोजित अँसाधारण महा सभा में पारित विशेष संकल्प के अनुसार कंपनी दारा कंपनी एसोसिएशन ज्ञापन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार के

कोई भी व्यक्ति जिसकी रुचि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रस्तावित धारा 8 कंपनी में रूपांतरण से प्रभावित होने की संभावना हो सकती है, और सपथ पत्न द्वारा समर्थित/ उसकी आपत्तियों के पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, दुसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर तथा आवेदक कंपनी को एक प्रति के साथ नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेज सकता है: 3308, अपोजिट पूसा गेट, रणजीत नगर , साउथ दिल्ली , नई दिल्ली - 110008,एतद्दवारा जन साधारण को सूचित किया जाता है कि कंपनी को अपना पंजीकृत कार्यालय " दिल्ली राज्य" से " राजस्थान राज्य" में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए, नवंबर 14 , 2022 को आयोजित असाधारण महा सभा में पारित विशेष संकल्प के अनुसार कंपनी द्वारा कंपनी एसोसिएशन ज्ञापन के परिवर्तन की पृष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत केंद्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव है.

कोई भी व्यक्ति जिसकी रुचि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रस्तावित धारा 8 कंपनी में रूपांतरण से प्रभावित होने की संभावना हो सकती है, और सपथ पत्न द्वारा समर्थित/ उसकी आपत्तियों के पंजीकृत डाक द्वारा क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्न, बी-2 विंग, दसरी मंजिल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से चौदह दिनों के भीतर तथा आवेदक कंपनी को एक प्रति के साथ नीचे दिए गए पंजीकृत कार्यालय के पते पर भेज सकता है: 3308, अपोजिट पुसा गेट, रणजीत नगर,साउथ दिल्ली,नई दिल्ली -110008,

कृते:सीटा एजुकेशन फाउंडेशन इंडिया पंजीकृत कार्यालय

NOTICE

Notice is hereby given that SONG

Investment Company, a company

incorporated under the laws of

Mauritius and registered with the

Securities and Exchange Board of India

(SEBI) as a Foreign Venture Capital

Investor (FVCI) bearing registration

no. IN/FVCI/08-09/122 dated February

02, 2009, is proposing to cease its

investment operations in India and

intends to surrender its FVCI

फार्म नं. आइएनसी-25ए कार्यालय क्षेत्रीय निदेशक, कारपोरेट मामलों का मंत्रालय, उत्तरी क्षेत्र, भारत के समक्ष कंपनीज अधिनियम, 2013, कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 14 और कंपनीज (इनकापॅरिशन) नियमों, 2014 के

पी ग्रंड आर इंफ्राप्रोजैक्ट्स लिमिटेड जिसका पंजीकत कार्यालय 89 लोक नायक अपार्टमेंट्स, सैक्टर 9, रोडिणी,

हमान्य जनता को एतदहारा सूचना दी जाती है कि कंपनी ऐसे बदलाय को कार्यान्यित करने के लिए कंपनी को सक्षम

बनाने के लिए 31 जनवरी, 2023 को आयोजित असाधारण

सामान्य चैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी

को निजी लिमिटेड कंपनी में चदलने की इच्छक है और

कंपनी ने अधरकधित नियमों के साथ पटित कंपनीज

अधिनियम, 2013 की धारा 14 के अंतर्गत केंद्र सरकार की

'कंपनी के प्रस्तावित बदलाव/स्थिति हारा प्रभावित होने वाले

कोई व्यक्ति, अपनी आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की

तिथि से चौदह दिनों के अन्दर संबंधित क्षेत्रीय निदेशका,

उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, द्वितीय तल, पर्वावरण भवन,

मीजीओ कम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003 को विरोध के

कारण तथा हित की प्रकृति वर्णित करने वाले शपथ-पत्र

हारा समर्थित आपत्तियों को पंजीकृत हाक हारा या थेजें जाने का कारण को डिलीवर कर सकते हैं जिसकी प्रति नीचे

वर्णित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर भेजनी है: 89 लोक

"प्रपन्न सं आइएनसी 26"

कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक निदेशक के समझ उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा

(4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के चपनियम (5) के खंद (अ) के मामले में

एबीवी नेटल्स एंड फोर्जिंग प्राइवेट सिनिटेड

जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 52-सी-विल-नंगली रजापुर

पी.ओ निजामुदीन नई दिल्ली-110013 में रिधत है

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' से 'उत्तर प्रदेश राज्य' में रथानांतरित करने के लिए तारीख 30 नवम्बर, 2022 को

आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संघम जापन में संशोधन

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह

व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत

दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित

का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सचना

के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के मीतर बी-2 विंग. द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत ढाक दवारा मेज सकता है या सुपुर्द कर सकते है और इसकी प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्ट्रीकृत

एबीवी मेटल्स एंड फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड र्चजिस्ट्रीकृत कार्यालय : 52-सी-विल-नंगली रजापुर पी.ओ निजामुदीन नई दिल्ली-110013

"प्रपन्न सं आइएनसी 26" कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

केन्द्रीय सरकार प्रादेशिक निदेशक

के समझ उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (अ) के मामले में

सबा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्टीकृत कार्यालय : 40 खिरकी विलेज नई दिल्ली--110017 में स्थित है

आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि यह कंपनी केन्द्रीय सरकार के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अधीन आवेदन फाइल का प्रस्ताव करती है जिसमें कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली" से "उत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के लिए तारीख 30 नवम्बर, 2022 को आयोजित असाधारण सामान्य अधिवेशन में पारित विशेष संकल्प के संदर्भ में कंपनी के संघम ज्ञापन में संशोधन

कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण

से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति या तो निवेशक शिकायत प्ररूप फाइल कर

एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) में शिकायत

दर्ज कर सकता है या एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित

का प्रकार और उसके विरोध का कारण उत्लिखित हो

के साथ अपनी आपत्ति प्रादेशिक निदेशक को इस सूचना

के प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर बी-2 विंग,

द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 पते पर पंजीकृत ढाक दवारा भेज सकता है या सुपूर्व कर सकते है और इसकी

प्रति आवेदक कंपनी को उनके उपरोक्त रजिस्टीकत

सबा प्रोजेक्टस प्राइवेट लिमिटेड

रिजरटीकत कार्यालय : 40 शिरकी विलेज नई दिल्ली-110017

www.readwhere.com

के लिए और निदेशक मंदल की और से

सबा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ता./-

निदेशक

विकांत सिंह राणा

डीआईएन : 08297087

की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कार्यालय के पते पर भी मेजेगा।

तिथि : 31.01.2023

स्थान : नई दिल्ली

के लिए और निदेशक मंडल की और से एबीवी मेटल्स एंड फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड

सत्वपाल सिंह

दीआईएन : 00945568

निदेशक

की पुष्टि की मांग की गई हैं।

कार्यालय के पते पर भी भेजेगा।

तिथि : 31.01.2023

स्थान : नई दिल्ली

पी एंड आर इंफ्राप्रोजैक्ट्स लिमिटेड

नायक अपार्टमेंट्स, सैक्टर 9, रोडिगो, दिल्ली- 110085

......चाचिकाकर्ता

registration with SEBI.

नियम 41 के विषय में तथा

दिल्ली- 110085 के विषय में।

आवेदन करने की इच्छूक है।

तिथि: 02.02.2023

डीआईएन: 07392792 दिनांक: 03.02.2023, स्थान : दिल्ली मंदिर पैलेस , P.O Box 1, जैसलमेर -345001, राजस्थान

इन्टरवर्ल्ड डिजीटल लिमिटेड

CIN:L72900DL1995PLC067808 पंजी. कार्या.: 701, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्बा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 फोन: 011-43571044-45; फैक्स: 011-43571047, वेबसाइट: www.interworlddigital in.

ईमेल : interworlddigital.in@gmail.com

31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के अनंकेक्षित स्टैंडएलॉन वित्तीय परिणामों का सार (रु. लाखों में 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2022 (अनंकेक्षित) (अनंकेक्षित) (अनंकेक्षित) विधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/ अथवा (14.19) मदों से पूर्व) 3. कर से पर्व अवधि के लिए शद्ध लाभ/ (हानि) (वि असाधारण मदों के बाद) 4. कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (वि 5. अविध हेतु कुल व्यापक आय (अविध हेतु (कर के बाद) लाभ/ (हानि एवं अन्य व्यापक आय (कर के बाद) से शामिल) 4783.77 आरक्षित (पूर्व वर्ष के तुलन-पत्र में दर्शाये गये

टिप्पणी: उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा), 2015 के विनियमन 33 के अन्तर्गत स्टॉक एक्स्चैंजों के पास दाखिल 31 दिसम्बर, 2022 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही के विस्तृत प्रारूप का सार है। उक्त तिमाही वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप बीएसई की वेबसाईट www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाईट

0.00

0.00

(0.13)

www.interworlddigital in पर उपलब्ध है। इन परिणामों को कम्पनी (इंड ए एस) नियमावली, 2015 के अनुसार तैयार किया गया है।

> निदेशक मंडल के लिये तथा उनकी ओर से इन्टरवर्ल्ड डिजीटल लिमिटेड के लिये हस्ता./- पीयूश कुमार अग्रवाल

स्थानः नई दिल्ली तिथि: 02.02.2023 DIN: 00090423

equitas

निदेशक

इक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लि.

(पूर्व में इक्विटास फाइनांस लि. विदित)

कॉर्पोरेट कार्यालयः नं. 769, स्पेन्सर प्लाजा, 4था तल, फेज-II अन्ना सलाई, चेन्नई, टीएन-600002

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत मै. इक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटे के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सचना जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सुचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था चंकि. नीचे वर्णित, ऋणधारक निर्धारित अवधि में इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदुद्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभृति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

कब्जा सूचना (नियम 8(1) के अंतर्गत)-अचल सम्पत्ति के लिये।

पुनर्मुल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)

8. | आय प्रति शेयर (रु. 1/- प्रति का) (जारी तथा अवरुद्ध प्रचालनों के लिये

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय बकाया राशि तथा उस पर आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज के साथ मै. इक्विटास स्मॉल फाइनांस बैंक लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की

जाती है। ऋणधारक(कों)/गारंटगें पविभव परिसमानि (अनल समानि) का विवसा

ऋणवारक(का)/गारटरा	प्रातभूत पारसम्पात (अचल सम्पात) का विवरण	माग सूचना	क्राजा का
का नाम		तिथि एवं राशि	तिथि
शाखाः जिन्द एलएएन नं. : एसईआईबीजेएनडी 172505 ऋणधारकों : 1 सोनू फर्नीचर वर्क्स 2 श्री सुरेन्द्रर 3 श्रीमती विपिन रानी	सह-आवेदक 1: विपिन रानी वर्तमान तथा भविष्य की सभी सुपर स्ट्रक्कर के साथ खेवत नं. 235, खतोनी नं. 308, खसरा नं. 1112/2/1 (1-16) कुल एरिया 01 बी 16 बी में उनके शेयर 1/36 अर्थात 01 बिस्वा, एरिया माप 150 वर्ग यार्ड्स में शामिल ग्राम अमरहेरी, जिन्द, अध, राजनगर कॉलोनी, जिन्द के नाम से विदित, की राजस्व सम्पदा में स्थित गैर-कृषि सम्पत्ति के रूप में आवासीय सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिरसा। उत्तरः गली, दक्षिणः श्रीमती कमला, पत्नी डेईराम का मकान, पूर्व गली, पश्चिम : गली माप : 150 के वर्ग यार्ड्स, जो उप-रजिस्ट्रार, जिन्द जिला तथा जिंद के पंजीकरण जिला के भीतर स्थित है।	₹. 1181338/-	30-12-2022
स्थान: जिन्द,		प्राधिवृ	हत अधिकारी,
तिथि: 03.02.2023	इक्वि	टास स्मॉल फाइ	नांस बैंक लि.

वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय: 71/1, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली-110015 कॉर्पोरेट पहचान संख्याः L74899DL1993PLC056652

ईमेलः investors@valiantcom.com वेब: www.valiantcom.com, टेलीः 011-25928415

31.12.2022 को समाप्त तिमाही के लिये अनंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का विवरण

(ईपीएस छोडकर रु. लाखों में)

विवरण	समाप्त तिमाही 31.12.2022	समाप्त तिमाही 31.12.2021	के लिये तिथि तक वर्ष के आकंडे 31.03.2022
	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय (शुद्ध)	903.25	331.68	2,214.30
अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (कर, विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	103.95	(181.00)	116.48
कर से पूर्व अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं/अथवा असाधारण मदों के बाद)	103.95	(181.00)	116.48
कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभ/ (हानि) (विशिष्ट एवं अथवा असाधारण मदों के बाद)	73.80	(145.33)	80.40
अवधि हेतु कुल व्यापक आय (कर से बाद)	90.32	(150.39)	105.49
इक्विटी शेयर पूंजी	722.35	722.35	722.35
आय प्रति शेयर (असाधारण मदों से पूर्व एवं बाद) मूल एवं तरल (रु. में)	1.02	(2.01)	1.11
टिप्पणीः स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश विवरणः			

- 1	मूल एवं तरल (रु. में)	1.02	(2.01)	1.11
	टिप्पणीः स्टैंडएलॉन अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश विवरणः			
1	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	876.13	313.30	2,141.48
	कर से पूर्व लाभ/(हानि)	113.02	(137.65)	134.06
1	कर से बाद लाभ/ (हानि)	82.87	(101.98)	97.98
1	कुल व्यापक आय (कर से बाद)	82.70	(107.57)	97.57

1. उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीयन तथा अन्य उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई तिमाही वित्तीय परिणामों के सम्पर्ण विवरण प्रारूप का सार है । तिमाही वित्तीय परिणामों का संपर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.valiantcom.com) पर भी उपलब्ध है।

वैलिएन्ट कम्युनिकेशन्स लिमिटेड के लिये इन्दर मोहन सुद

प्रबंध निदेशक स्थानः नई दिल्ली तिथि: 2 फरवरी, 2023 निदेशक पहचान संख्या: 00001758



Dr. Lal PathLabs Limited

CIN: L74899DL1995PLC065388 Regd. Office: Block E, Sector-18, Rohini, New Delhi- 110085

Corporate Office: 12" Floor, Tower B, SAS Tower, Medicity, Sector-38, Gurugram-122 001, Haryana Phone: +91 124 3016500; Fax: +91 124 4234468; Website: www.lalpathlabs.com; Email: cs@lalpathlabs.com

Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter & nine months ended 31 December, 2022 (Rs. in million except as stated)

S. No.	Particulars	3 months ended 31 December, 2022	Nine months ended 31 December, 2022	Corresponding 3 months ended 31 December, 2021
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	4,999	15,534	5,090
2	Net Profit for the period before Tax and Exceptional items#	765	2,607	815
3	Net Profit for the period before Tax and after Exceptional items#	765	2,607	815
4	Net Profit for the period after Tax and after Exceptional items#	536	1,842	582
5	Total Comprehensive Income for the period after tax#	548	1,878	570
6	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs. 10/- per share)	834	834	833
7	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each) (not annualised)			
	(a) Basic (In Rs.)	6.37	22.00	6.93
	(b) Diluted (In Rs.)	6.35	21.92	6.90

*Before non-controlling Interest

Notes:

Key numbers of the Standalone Results are as under:

(Rs. in million except as stated)

S. No.	Particulars	3 months ended 31 December, 2022 (Unaudited)	Nine months ended 31 December, 2022 (Unaudited)	Corresponding 3 months ended 31 December, 2021 (Unaudited)				
1	Total Income from Operations	4,370	13,696	4,338				
2	Profit for the period before Tax	841	2,922	832				
3	Profit for the period after Tax	624	2,206	617				
4	Total comprehensive income	636	2,241	606				
ii.	The above results were reviewed by the	ove results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors in their respective						

meetings held on 2 February, 2023.

The Board of Directors, which has been identified as being the chief operating decision maker (CODM), evaluates the Group's performance, allocates resources based on the analysis of the various performance indicators of the Group as a single unit. Therefore there is no reportable segment for the Group, in accordance with the requirements of Indian Accounting Standard 108 - 'Operating Segments', notified under the Companies (Indian Accounting Standard)

The above is an extract of the detailed format of Quarterly and nine months financial results as per Ind AS filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full Financial Results of the Quarter and nine months ended is available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and the Company's website (www.lalpathlabs.com).

For and on behalf of the Board of Directors of Dr. Lal PathLabs Limited

Place: Gurugram Date: 2 February, 2023 (Hony) Brig. Dr. Arvind Lal **Executive Chairman**

अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

(कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के अधीन कॉर्पोरेट कर्जदार) आम सार्वजनिक सूचना

कम्पनी के ऋण से सम्बंधित सभी स्टेकहोल्डर को एतद द्वारा सचित किया जाता है कि माननीय NCLAT. नई दिल्ली ने 2023 की CA(AT)(INS) सं. 41 में अपने आदेश दिनांकित 13.01.2023 में निर्णय लिया कि धारा 7 को स्वीकार करने वाले अधिनिर्णायक प्राधिकरण के आदेश जिल गुडगांव में स्थित **"फर्नहिल प्रोजेक्ट"** तक सीमित रहेंगे। अतः कम्पनी दिवाला समाधान प्रक्रिय अगले आदेशों तक **"फर्निहिल प्रोजेक्ट"**, गुडगांव तक सीमित रहेगी। आदेश की प्रति

अगल आदशा तक फनाहल प्राप्यपट , उज्जान की जा चुकी है । हस्ता/-cirp.ansalapi.com पर 16.01.2023 को दर्शायी (अपलोड) की जा चुकी है । हस्ता/-अश्विनी कुमार सिंगला (अंतरिम समाधान प्रोफेशनल)

दिनांक : 03.02.2023 अंसल प्रोपर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड-प्रोजेक्ट फर्नहिल, गुडगांव के मामले मे आई पी पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P-02035/2020-2021/13122 स्थान : फरीदाबाद

मेटल कोटिंग्स (इंडिया) लिमिटेड CIN: L74899DL1994PLC063387 पंजीकृत कार्यालय : 912, हेमकुंट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली-110019

Email: info@mcilindia.net Website:www.mcil.net, Tel.: 011-41808125 सचना

निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में कम्पनी की डिक्वटी शेयरों का अंतरण रोयरधारकों को सचित किया जाता है कि निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष प्राधिकरण (लेखा, ऑडिट, अंतरण तथा रिफंड) नियमावली, 2016 ''नियमावली'') के नियम 6 के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी को वित्त वर्ष 2015-16 के लिये लाभांश, जो ज्ञात वर्षों की अवधि से दावा–रहित रहा है, को आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित करना है। तत्स्थानीय शेयरों जिसमें लगातार सात वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है. को भी नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया में अंतरित किया जायेगा।

नेयमावली के अनुसार कम्पनी ने संबंधित शेयरधारकों को उपयुक्त कार्रवाई करने के लिये एफवाई 2023–24 के दौरान आईईपीएफ में अंतरित किये जाने वाले शेयर के शेयरधारकों को उनके पंजीकृत पते पर वैयक्तिक रूप से सुचित कर दिया है तथा ऐसे शेयरों का विवरण जिन्हें आईईपीएफ में अंतरित किया जाएगा, हमारी वेबसाईट अर्थात् www.mcil.net पर उपलब्ध है। संबंधित शेयरधारक अंतरित की जाने वाली अन-एन्कैश्ड नाभांश तथा शेयरों के विवरणों की जाँच वेबसाईट पर कर सकते हैं। भौतिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों जिनकी शेयरों क आईईपीएफ में अंतरित किया जायेगा. यह ध्यान रखें कि डीमैट पद्धति में उसे रूपांतरित करने तथा आईईपीएफ के पक्ष में अंतरित करने के लिये कम्पनी उनके द्वारा धारित मूल की जगह डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करेगी। डी-मैट पद्धति में शेयर धारित करने वाले शेयरधारकों के लिये उनकी डी-मैट खाता को आईईपीएफ में अंतरण की जाने के लिये नियत शेयरों है

शेयरधारक पुनः ध्यान रखें कि उसकी वेबसाईट पर कम्पनी द्वारा अपलोड की गई विवरणों को आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के उद्देश्य से कम्पनी द्वारा डिप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के संदर्भ में पर्याप्त सचना माना जाएगा।

यदि 30 अप्रैल, 2023 तक कम्पनी को संबंधित शेयरधारकों से कोई सचना नहीं प्राप्त होती है तो नियमावली की अपेक्षाओं का अनुपालन करने वे लिये नियमावली में निर्दिष्ट प्रक्रिया में नियत तिथि तक आईईपीएफ में लाभांश अंतरित कर दी जाएगी।

तत्स्थानीय शेयरों जिस पर लागतार सात वर्षों से लाभांश का दावा नहीं किया गया है. कोई भी बिना किसी अग्रिम सचना के अंतरित कर दिया जायेगा कपया ध्यान रहे कि आईईपीएफ में अंतरित लाभांश तथा शेयरों के लिये कम्पनी के विरुद्ध कोई भी दावा नहीं की जा सकेगी। शेयरधारक नियमावर्ल में निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद आईईपीएफ पाधिकरणों से ऐसी शेयरों पर उपचिवत होने वाले सभी लाभों सहित आईईपीएफ में अंतरित उक्त विषय पर किसी भी पुछताछ के लिये शेयरधारकों से आग्रह है कि कम्पनी के रजिस्टार तथा शेयर अंतरण एजेन्टस, मै. लिंक इन्टाइम इण्डिय

प्राईवेट लिमिटेड, नोवल हाइट्स 1ला तल, प्लॉट नं. एनएच 2. एलएससी, सी-1 ब्लॉक, सावित्री मार्केट के निकट, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058, ईमेलः delhi@linkintime.co.in; वेबसाइट : www.linkintime.co.in पर सम्पर्क करें। नेटल कोटिंग्स (इंडिया) लिमिटेड के लिरं

स्थान : नई दिल्ली अदिति सिंह

तिथि : 02.02.2023 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकार्र AMS POLYMERS LIMITED (Formerly, Sai Moh Auto Links Ltd)

EXTRACT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2022						
s. N.	Particulars	For the Quarter Ended 31.12.2022 (Unaudited)	For the Nine month Ended 31.12.2022 (Unaudited)	Ended 31.12.2021		
1	Total income from operations (net)	2,021.39	6,032.77	3,592.62		
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax, exceptional and/ or Extraordinary items)	6.39	19.97	8,89		
3	Net Profit/ (Loss) for the period before tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	6.39	19.97	8.89		
4	Net Profit/ (Loss) for the period after tax (after exceptional and/ or Extraordinary items)	4.73	14.78	7.51		
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/ (loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax))	4.73	14.78	7,51		
6	Equity Share Capital	330.25	330.25	330.25		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	(A.				
8	Earnings Per Share (of Re.10/- each) (for continuing and discontinued operation)					

The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended 31st December, 2022 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirments) Regulations, 2015. The full format of the aforesaid Quarterly Financial Results is available on the BSE's website, i.e www.bseindia.com and on the Company's website www.amspolymers.com. The above esults are prepared in accordance with the Companies (Ind AS) Rules, 2015.

For and on behalf of Board Directors of **AMS Polymers Limited**

Place: Delhi Date: 02.02.2023 Managing Director (DIN: 01381489)

IMPORTANT

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

OSBI

केडिट जोखिम प्रबंधन विभाग, कॉरपोरेट केंद्र तीसरी मंजिल, मफतलाल केंद्र, नरीमन पॉइंट, मुंबई-400021

प्रस्ताव हेत् अनुरोध (आरएफपी) आरएफपी नं::SBI/CRMD/RARR/22-23/01 दिनांक: 03.02.2023 भारतीय स्टेट बँक द्वारा 'प्रिडिक्टिव रिटेल पोर्टफोलियो विश्लेषण के लिए सब्सक्रिप्शन–आधारित

उपकरण' के लिए पात्र बोलीदाताओं बोलियां आमंत्रित की जाती है, विस्तत जानकारी के लिए. कृपया https://www.sbi.co.in पर 'प्रोक्योरमेंट न्यूज' देखें. आरएफपी डाउनलोड करना प्रारंभ : 03.02.2023 (दोपहर 03:00 बजे से) बोलियाँ जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय : 27.02.2023 को टोपहर 03:00 बजे तक उप महाप्रबंधक

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD Navratna Company (A Govt. of India Undertaking) एनएसजाईसी ज्यू एमढीबीपी बिल्डिंग, द्वितीय गंधिल, ओखला इंडस्ट्रियल एस्टेट (एनएसजाईसी ओखला नेट्रो स्टेशन के सामने), नई दिल्ली - 110020

निविदा सूचना (केवल ई-निविदा मोड)

र्याच (04+1) वर्ष की अवधि हेत् एमएमएलपी मिहान, नागपुर (महाराष्ट्र) में कंटेनरों के संचालन हेत् ऑनलाइन –बोलियां आमंत्रित की जाती हैं।

CON/AREA-II/MIHAN/HANDLING/2023 प्रनमानित लागत रु. 26,19,60,000 / - (जीएसटी सहित) पांच (04+1) वर्ष हेत् 03.02.2023 को 15:00 बजे से 23.02.2023 (16:00 बजे तक) बिक्री की तिथि (ऑनलाइन) बोली-पूर्व बैठक 17.02.2023 को 15:00 बजे जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय 24.02.2023 को 16:00 बजे तक

खलने की तिथि एवं समय 27.02.2023 को 15:30 बजे पात्रता मानदंड एवं अन्य विवरण के लिए, कृपया www.concorindia.com या eprocure.gov.in य www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग-ऑन करें। बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि वे नियमित रूप से वेबसाइटों को देखें। पर्ण विवरण हेत www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग-ऑन करें। कार्यकारी निदेशक / क्षेत्र-॥

प्रपत्र ए

सार्वजनिक उदघोषणा

(भारतीय ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया बोर्ड (निगमित व्यक्तियों के लिए ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली २०१६ के विनियम ६ के अंतर्गत)

> फर्सिफाक्स टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड के क्यानायों के ध्यानार्थ

के ऋगदाताओं के ध्यानाथ							
प्रासंगिक विवरण							
1	निगमित देनदार का नाम	फोर्सफॉक्स टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड					
2	निगमित देनदार के निगमीकरण की तिथि	19/01/2016					
3.	प्राधिकरण, जिसके अंतर्गत निगमित देनदार	कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार					
	निगमीकृत / पंजीकृत है	THE TAIL STATE OF THE STATE OF					
4.	निगमित देनदार की निगमित पहचान सं./सीमित	U32107HR2016PTC057851					
	दायित्व पहचान सं.	052107111120131 10037031					
5.	निगमित देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान	भूखंड सं. 321, फेज-5, सेक्टर-56, ईएचटीपी,					
	कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	एचएसआईआईडीसी औद्योगिक क्षेत्र कुंडली सोनीपत					
		हरियाणा 131028					
6.	निगमित देनदार के संदर्भ में ऋणशोधन अक्षमता	01.02.2023					
	प्रारंभन तिथि						
7.	ऋणषोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया समापन की	31.07.2023					
	अनुमानित तिथि						
8.	अंतरिम समाधान पेशेवेर के रूप में कार्यरत्	नाम : संदीप चांदना,					
	ऋणशोधन अक्षमता पेशेवर का नाम तथा पंजीकरण संख्या	पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00447/2017-18/11237					
	संख्या बोर्ड के साथ पंजीकृतानुसार, अंतरिम समाधान	23, जीएफ, ए–ब्लॉक, साउथ सिटी–2, सेक्टर–49,					
9.	पेशेवर का पता एवं ई—मेल	23, जाएफ, ए-ब्साक, साठव सिटा-2, संपटर-49, सोहना रोड, गुड़गांव-122018					
	परापर पर्न परा। ९५ इ—मल	cssandeep@live.in					
10.	अंतरिम समाधान पेशेवर के साथ पत्र-व्यवहार हेतु	23, जीएफ, ए–ब्लॉक, साउथ सिटी–2, सेक्टर–49,					
10.	प्रयोग किए जाने के लिए पता एवं ई—मेल	23, जार्य, र—ब्साय, साठव सिटा—2, सपटर—43, सोहना रोड, गुड़गांव—122018					
	211111111111111111111111111111111111111	cssandeep@live.in					
11.	दावों को जमा करने की अंतिम तिथि	15.02.2023					
12.	अंतरिम समाधान पेशेवर द्वारा सुनिश्चित, धारा 21	श्रेणी(णियों) का नाम—शुन्य					
	की उप–धारा (६ए) के उपवाक्य (बी) के अंतर्गत	, , ,					
	ऋणदाताओं को श्रेणियां, यदि कोई हों,						
13.		एन.ए.					
	प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए चिन्हित						
	ऋणशोधन अक्षमता पेशेवरों के नाम (प्रत्येक श्रेणी के						
J.	लिए तीन नाम)						
14.	(क) सुसंगत प्रपत्र एवं	(क) वेब लिंक : https://ibbi.gov.in/en					
	(ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों के विवरण,						

एतदद्वारा सचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी विधिक अधिकरण ने 01 फरवरी 2023 को 'फोर्सफॉक्स टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड' की एक निगमित ऋणशोधन अक्षमता समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश दिया है। एतदद्वारा 'फोर्सफॉक्स टेक्नोलोजीज प्राइवेट लिमिटेड' के ऋणदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे 15 फरवरी 2023 को अथवा इससे पूर्व अंतरिम समाधान पेशेवर के पास प्रविष्टि सं 10 के समक्ष वर्णित पूर्व पर साक्ष्य के साथ अपने दावे प्रस्तुत करें। वित्तीय ऋणदातागण अपने दावों को साक्ष्य के साथ केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा जमा करेंगे। समस्त अन्य

ऋणदातागण साक्ष्य के साथ अपने दावों को व्यक्तिगत रूप में, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जमा कर एक वित्तीय ऋणदाता जो किसी एक श्रेणी से संबंधित है, प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष सचीबद्धानुसार, प्रपत्र सीए में श्रेणी (श्रेणी विनिर्दिष्ट करें) के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतू प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन ऋणशोधन पेशेवरों के मध्य में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पंसद का उल्लेखन करेगा।

IBBI/IPA-002/IP-N00447/2017-18/11237

दावों के गलत अथवा भ्रामक साक्ष्य जमा करने पर दंड अधिरोपित किया जाएगा।

यहां उपलब्ध हैं

गुड़गांव 02-02-2023

0.02

APL APOLLO TUBES LIMITED CIN: L74899DL1986PLC023443

Regd. Office: 37, Hargobind Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092 Corp. Office: 36, Kaushambi, Near Anand Vihar Terminal, Ghaziabad 201010 Email: info@aplapollo.com | Website: www.aplapollo.com Tel: 0120-4041400 | Fax: 0120-4041444



Diluted







EXTRACT OF STATEMENT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2022

(₹ in Crs. except earning per share data)

S.No.	Particulars	Quarter ended	Nine Months ended	Quarter ended
		Dec. 31, 2022	Dec. 31, 2022	Dec. 31, 2021
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	4327.10	11734.86	3230.38
2	EBIDTA	282.15	727.87	210.19
3	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	228.98	594.15	172.06
4	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	228.98	594.15	172.06
5	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	169.18	440.04	127.88
6	Total Comprehensive income for the period	167.08	430.20	128.21
7	Equity Share Capital	55.47	55.47	50.02
8	Other Equity	(*)		
9	Earnings Per Share (face value of ₹ 2/-not annualised for quarterly figures)			
	Basic: Diluted:	6.76 6.10	17.58 15.87	4.62 4.60

Not	es:			(₹ in Crs		
1	Brief of Standalone Financial Results for the quarter and nine months ended 31 December, 2022:					
		Quarter ended	Nine Months ended	Quarter ended		
	Particulars	Dec. 31, 2022	Dec. 31, 2022	Dec. 31, 2021		
	100 mm (100 mm 100 mm 1	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)		
	Income from Operations	3761.18	10593.22	2895.40		
	Profit Before Tax	180.37	485.23	138.00		
_						

Profit After Tax 133.18 360.06 103.06 The above is an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Unaudited Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange(s) (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website "www.aplapollo.com".

Place: Ghaziabad

Date: 2 February, 2023



APLAPOLLO

For APL Apollo Tubes Limited

Chairman & Managing Director

Sd/-

Sanjay Gupta

